### A2Z INFRA ENGINEERING LTD.

CIN NO. L74999HR2002PLC034805



REF. No.:- A2ZINFRA/SE/2022-23/27

#### BY E-FILING

August 27, 2022

To, BSE Limited PhirozeJeejeebhoy Towers Rotuda Building, Dalal Street, Mumbai-400 001

Fax-022-22722039 BSE Code- 533292 To,
National Stock Exchange of India Limited
Listing Department
Exchange Plaza, 5th Floor
Plot No. C/1 G Block, Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai-400051

Fax- 022-26598237/38 NSE Code- A2ZINFRA

Sub: Copy of the Advertisement published in Business Standard Newspaper (Both English & Hindi) regarding dispatch of Notice of 21st Annual General Meeting (AGM), E-voting information and Book Closure intimation

Dear Sir(s),

We, M/s A2Z INFRA ENGINEERING LTD. enclosed herewith copy of the Advertisement published in "Business Standard Newspaper" (Both English & Hindi) dated 27th August, 2022, regarding dispatch of Notice of 21st Annual General Meeting(AGM), E-voting information and Book Closure intimation.

Kindly take the above information in your records.

ginee

Gurugram

Thanking you,

Yours Truly

For A2Z INFRA ENGINEERING LTD.

Atul Kumar Agarwal Company Secretary

FCS-6453

Add: - Plot No. B-38, Institutional Area, Sector-32, Gurgaon-122001, Haryana

**Enclosure: Copy of Newspaper Publication** 

# Making smaller chips a \$15-bn challenge

Chips of smaller nodes are faster and more profitable, but their factories can cost as much as a nuclear power plant

SURAJEET DAS GUPTA New Delhi, 26 August

ompanies that have applied for India's financial incentive scheme to set up facilities to manufacture chips - integrated circuits imprinted on silicon wafers — are divided on the way forward. The bone of contention is the size of the nodes. Everyone knows small is the future of chip making. But there are deep schisms over the right size to start with, and how one should progress to smaller, more powerful, more sophisticated, and eventually more profitable chips.

The Vedanta-Foxconn joint venture has said it would begin production with 28 nano metre (nm) chips, focusing on the consumer electronics and mobile devices market. It will invest \$7 billion and earmark 80 per cent of its output for domestic consumption. Singaporebased IGSS Ventures, too, says it will concentrate, at least initially, on chips of 28 nm to 65 nm for which it already has the

"It is the right way to begin. The foundry market for 28 nm chips would be around \$1.14 billion in India, out of the global \$8 billion market, by 2025 and has a lifecycle of five to seven years," says Satva Gupta, former president of the Indian Electronics and Semiconductors Association (IESA). Gupta's study shows that 38 per cent of the value of the foundry business in 2025 will still be from chips of 18 nm and above.

Foundries are factories that make panies such as Qualcomm. The other the value share of the analogue chips. kind of chip making is by companies such as Intel, which are integrated man-incentive scheme for building the semi-


ufacturers that both design as well as manufacture — and sell directly to their clients. Samsung is the third kind, which does both: make for itself as well as for others. Intel is now setting up a foundry business as well.

ISMC, a consortium led by Mumbaibased Next Orbit, which has signed a definitive agreement with Israel-based Tower Corporation for technology and which has now been acquired by Intel, has a different view. "The way to start is to make analogue chips to begin with and then move to digital and then memory, which is called the crawl-walk-run strategy. As digital and memory are more capital-intensive and involve complex technology, the best way is to start with analogue, create a semiconductor infrastructure and supply chain through analogue, and then move up," says Ajay Jalan, founder, Next

The lower the nano metre of a digital chip, the more its cutting edge, meaning more processing power while using less electricity and more functionalities. Small-node chips therefore command higher price tags and yield bigger profit margins. Analogue chips range from 45 nm to 230 nm. India's semiconductor market — chip is the general term for semiconductor component products is expected to touch \$64 billion by 2026 according to IESA, with digital chips of 22 nm or less commanding an overwhelming \$40 billion, or more than 60 per cent, of the total market, says ISMC. The share of chips above 22 nm, it says, will chips for third party chip design comfall to a mere 20 per cent, pretty close to


The Indian government's \$10 billion


## INDIA SEMICONDUCTOR TOTAL ADDRESSABLE MARKET **OVERVIEW**



2026







to digital chips, starting from

Jalan justifies the move for

two reasons. First, he says, the

analogue chip market in India -

now at \$6-8 billion — is expected to grow

at 15 per cent a year to touch \$11 billion

by 2026 and stay there for the next 30

years. Secondly, an analogue chip plant

requires an investment of \$3 billion,

which is a lot less than the \$7-10 billion

22 nm and going down to 14

conductor industry has pegged the financial subsidy for the project cost of the fab plant based on the chip size. Eligible players would get only 30 per cent if they manufacture chips above 45nm, 40 per cent for above 28 nm, and

50 per cent for chips of 28 nm or less. ISMC initially plans to go with more advanced analogue chips of 65 nm and then move down to 45 nm. (Currently 180 nm analogue chips are the most popular.) In the second phase, it will move

FOR INDIAN FAB 2025 (ESTIMATED % SHARE)

needed for a 28 nm plant. Like many in the industry. Jalan does not see a future in digital 28 nm chips, as the Indian plants will take two to four years to get off the ground. By that time, in the fast changing world of chip making, the global market would have shifted to 22 nm, which is expected to have a lifecycle of four to seven years, followed by the 14 nm chip.

Even Gupta's estimates show that as much as 50 per cent of the foundry value of sale in India would be accounted for by chips with nodes of 14 nm and below by 2025. Demand for lower node chips is expected to explode in the country with the imminent launch of 5G telecom services, new use cases emerging from the auto industry as it shifts from internal combustion engines to electric, the

growth of Internet of Things, and digitalization in the government and corporate sectors.

So, why are the applicants not choosing to manufacture chips of lower nodes? One big challenge is the technology. The few global companies

that have the technology, such as TSMC, Samsung, and Intel, are unlikely to transfer it in the 14 nm and less segment, at least for a while, as they have invested billions of dollars to develop it and would want to recover

The second challenge is the investment required. According to Boston Consulting Group, a state-of-the-art fab plant for small nodes can cost upwards of \$15 billion, which is about as much as the cost of a nuclear power plant.

The third is that India is not a focus market for global chip makers for setting up small-node chip fab units. Intel, for instance, has committed investments worth \$100 billion to build plants in the United States and Germany, Samsung \$205 billion in three years in its existing locations, and TSMC \$100 billion to boost its output in Taiwan and the US.

# House panel grills Twitter officials over data security

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, 26 August

A parliamentary panel Friday questioned top Twitter officials over a whistle-blower's revelations on its India operations, and gave them a dressing-down as their replies on issue of data security and privacy were "not satisfactory",

Top Twitter executives, including Senior Director (Public Policy) Samiran Gupta, Director (Public Policy) Shagufta Kamran deposed before the Parliamentary Standing Committee on Information and Technology chaired by senior Congress leader Shashi Tharoor.

The panel questioned them about the reports on former head of Twitter (security) Peiter Zatko's allegations the microblogging site knowingly allowed the Indian government to place its "agents" on the com-

pany payroll where they Twitter officials' had "direct unsupervised replies on issue of access to the company's data security and systems and user data". The privacy were "not Twitter officials denied any satisfactory", such thing having hap- sources said pened and refused there was any data security breach in India, sources in the panel said.

The members also questioned the social media giant's officials if their data security policies is in synch with local policies and with the single global privacy policy. They also asked how does the microblogging site handles conflicts in national privacy policies of different countries, with the sources saying the executives didn't give satisfactory replies.

They also evaded questions about data safety and privacy, a member said, following which they were reprimanded by the MPs.

Zatko's allegations were reported by international media houses.

Twitter has already stated it was a "false narrative" and the allegations and "opportunistic" timing appear designed to capture attention and inflict harm on the company, its customers and its shareholders.

# Diageo halts whiskey sales in India to push price hikes

One of Hina Nagarajan's first moves at the helm of liquor giant Diageo Plc's Indian arm is a standoff with government officials over price caps that have already cost the company almost \$9 million in and might backfire.

United Spirits Ltd. has paused whiskey sales in a number of states yet to budge on price caps despite rising inflation. The move to stop sales rather than see margins continue to erode is a risky bet, analysts at Mumbai-based Dolat Capital wrote last month, that could complicate the firm's pivot to premium September.

products. It also means a mounting loss of revenue across its portfolio while costs rise at a double-digit pace.

"I didn't realize how difficult it is," 57-year-old Nagarajan said, referring to the maze of red tape that spans 36 states and union territories in a country where alcohol is still sometimes seen as forbidden.

"In the short term there will be some impact on market share," she said in an interview in the southern city of Bengaluru, adding that she hopes pricing issues will be resolved by the end of



# <u>TENDER NOTICE</u>

Sealed tenders are invited for Selection of ' Life Insurance Company to provide Life & Group Credit Life Insurance Products under "Request for Proposal (RFP) for Corporate Agency Arrangement tie-up with a Life Insurance Co to fill the 3" slot" vide PSB/CA-LIFE/THIRD SLOT/22-23/01 Dated 27/08/2022

For specifications & other relevant details, RFP may be downloaded from Bank's website https://puniabandsindhank.co.in. Any further change related to the said Tender shall be posted on Bank's website Asstt. General Manager (M&I)

#### **A2Z INFRA ENGINEERING LIMITED** CIN-L74999HR2002PLC034805

Regd. Off.: O-116, First Floor, Shopping Mall, Arjun Marg, DLF City, Phase 1, Gurugram-122002, Harvana Corporate Office: Plot No. B-38, Sector 32, Institutional Area, Gurugram-122001, Haryana

Tel.: 0124-4517600, E-mail: investor.relations@a2zemail.com, Website: www.a2zgroup.co.in NOTICE OF 21ST ANNUAL GENERAL MEETING (AGM), E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

OTICE is hereby given that the 21st (Twenty First) Annual General Meeting ("AGM") of the members of A2Z Infra Engineering Limited ("the Company") is scheduled to be held on Monday, September 19, 2022 at 12.30 P.M. through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business as et out in the Notice of the AGM, in compliance with General Circular Nos.14/2020 17/2020 and 20/2020 dated April 8, 2020, April 13, 2020 and May 5, 2020, respectively and clarification circular No. 02/2021 dated January 13, 2021,Circular No. 19/202 dated December 08, 2021, Circular No. 21/2021 dated December 14, 2021 and Circular No. 2/2022 dated May 05, 2022 issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA" Irculars") and SEBI/ HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 Issued by he Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular") and Regulation 44 ( SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

The Company has sent the Annual Report for FY 2021-22 along with the notice of AGM on Friday, August 26, 2022 through electronic mode (i.e. e-mail) to thos Members whose E-mail address were registered with the Depository Participant(s) the Company and the Company's Registrar and Share Transfer Agent ("RTA"). The Annual Report of the Company and Notice of the AGM for the FY 2021-22 which nclude e-voting instructions are also available on the website of the Company www.a2zgroup.co.in), BSE Limited (www.bseindia.com), National Stock Exchange of India Limited (<u>www.nseindia.com</u>) and National Securities Depository Limite

Pursuant to provision of Section 91 of the Companies Act, 2013 and the Compan Management & Administration) Rules, 2014 as amended by the Companies Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday purpose of AGM.

n Compliance with the provision of Section 108 of the Companies Act, 2013 read wit Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements Regulations, 2015, the Company is pleased to provide its members to cast their vote using an electronic voting system ('remote e-voting') as well e-voting at AGM through e-voting service provided by National Securities Depository Limited (NSDL) in respect of all the business to be transacted in the AGM. The procedure to cast vote using voting system of NSDL has been described in the Notice under the caption "How to cast your vote electronically and Join Meeting on NSDL e-Voting system" Mr. Suchitta Koley (C.P No. 714), Partner of DR Associates, Practicing Compan Secretaries. New Delhi has been appointed as Scrutinizer to scrutinize the Remot e-Voting and e-voting at the AGM in a fair and transparent manner and for conducting the scrutiny of the votes cast. Other information's are as under-

- The Cut-off date for the remote e-voting and e-voting at the AGM is Monday September 12, 2022. The remote e-voting period commences on Friday, September 16, 2022 at 09:00 a.m. and ends on Sunday, September 18, 2022
- The Remote E-voting shall not be allowed beyond the said date and time. Any person, who acquires shares of the Company and become member of the
- npany after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on the cutoff date i.e. September 12, 2022, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or investor.relations@a2zemail.com. However, if you are already registered with NSDL for e-voting then you can us your existing user ID and password for casting your vote. If you forgot your password, you can reset your password by using "Forgot User Details/Password option available on www.evoting.nsdl.com.
- The members who have cast their vote by remote e-voting may attend the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again.
- The facility for voting through electronic means shall also be provided at the AGM and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e voting shall be able to exercise their right at the meeting through e-voting syste
- In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) fo members, who need assistance before or during the AGM and e-voting user manufor members available on the website <a href="www.evoting.nsdl.com">www.evoting.nsdl.com</a> under the "downloads" section. You can also contact NSDL on toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or Ms. Sarita Mote, Assistant Manager, NSDL at designated email id <a href="mailto:evoting@nsdl.co.in">evoting@nsdl.co.in</a>, who will address the grievances related to electronic y be addressed to Mr. Atul Kumar Agarwal, Company Secretary or car be forwarded at email: investor.relations@a2zemail.com.

The Members of the Company, who have not registered their e-mail address, ca register the same as per following procedure:

- In case shares are held in physical mode, please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (selfattested scanned copy of PAN card) and AADHAAR (self attested scanned copy of Aadhaar Card) mobile number and e-mail id by email to Company a
- email address with their Depository Participant or for temporary registration, please share DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, clien master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card), mobile number and e-mail id by email at investor.relations@a2zemail.com or to RTA a

of the AGM of the Company. The result declared along with the scrutinizer's report wil e placed on the Company's website (www.a2zgroup.co.in) and on the website NSDL for information of the members and would also be communicated to the Stoci Exchanges.

> By Order of the Board For A2Z INFRA ENGINEERING LIMITED

Place: New Delhi

Date: 26<sup>th</sup> August, 2022

INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION LTD (A Government of India Enterprise) CIN: L65910DL1986GOI026363

Room Nos. 1316 - 1349, 3rd Floor, The Ashok, Diplomatic Enclave 50-B, Chanakyapuri, New Delhi - 110021

Phone: 011-24100385

Email: investors@irfc.co.in, Website: https://irfc.co.in/

### PUBLIC NOTICE OF CONVENING 35th ANNUAL GENERAL MEETING THROUGH VC/OAVM

I. Notice is hereby given that 35th Annual General Meeting (the "AGM") of Indian Railway Finance Corporation Limited (the "Company") will be held on Friday, 23rd September, 2022 at 03:00 p.m. (IST) through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules notified thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with all applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI") to transact the businesses, as set out in the notice calling the AGM

2. The VC/OAVM facility for the meeting shall be provided by Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") to transact the business set out in the Notice convening the AGM. The Members can attend and participate in the AGM only through VC/OAVM as no provision has been made to attend the AGM in person. The attendance through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum for the AGM.

- 3. In Compliance with the MCA & SEBI circular(s), Notice stating out the business to be transacted at the AGM together with the Annual Report of the Company for the year 2021-22 have been sent electronically to those members whose email address is registered with the Company/Depository Participant(s) and hard copy of Annual Report will be provided to those shareholders who will specifically request for the same. The Notice of the AGM and the Annual Report is also available on the Company's website at https://irfc.co.in/investors 2/#tab-1-5 and on the website of Stock Exchanges, i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, and also on the website of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") at www.evotingindia.com.
- Further, pursuant to the provisions of Companies Act, 2013, rules made thereunder and SEBI (LODR) Regulations, 2015 it is informed that the Company has fixed the following dates in connection with the 35th AGM & Final Dividend.

Sr.No.	Particulars	Details	
1.	Cut-off date for determining the eligibility of shareholders to vote by electronic means or during the general meeting	ity ic Friday, 16th September, 2022	
2.	Closure of Share Transfer Books	Monday, 19 <sup>th</sup> September, 2022 to Thursday, 22 <sup>nd</sup> September, 2022 (both days inclusive).	
3.	Period of remote e-voting to enable shareholders as on the cut-off date i.e. Friday, 16 <sup>th</sup> September,2022 to cast their votes on proposed resolution electronically	Tuesday 20th September, 2022 at 9:00 AM	
4.	Record date for Final Dividend	Friday, 16 <sup>th</sup> September, 2022	

- 5. Members will have an opportunity to cast their vote(s) on the business as set out in the Notice of the AGM through remote e-voting facility (remote e-voting). Any Person holding shares in physical form and non-individual shareholders who acquires shares of the company and become a Member of the Company after sending of the Notice and is holding shares as on the cut-off date may obtain the login ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com.
- 5. The facility for e-voting will also be made available during the AGM to those members who could not cast their vote(s) through remote e-voting. The remote e-voting module will be disabled after the date and time as aforementioned. Once the vote on a resolution is cast by the member, he/she shall not be allowed to change it subsequently. The detailed procedure for e-voting before as well as during the AGM is provided in the Notice of the AGM. Members who do not receive email or whose email address is not registered with the company/DP, may generate login credentials as per the instructions given in the Notice of AGM.
- . Board of Directors of the Company has recommended a final dividend Rs. 0.63/- per equity share having face value of Rs.10/- each. The final dividend if approved, by the shareholders in the ensuing AGM will be paid in 30 days to the eligible Members. Members may note that the Income Tax Act, 1961 as amended by the Finance Act 2020 mandates that dividend paid or distributed by a Company is taxable in hands of members. The Company shall therefore be required to deduct tax at source (TDS) at the time of making payment of dividend. In order to enable the company to determine the applicable TDS rates, members are requested to submit the relevant documents on or before Friday, 16th September, 2022 to our RTA, at irfc@beetalfinancial.com. If there is no such communication received on or before Friday. 16th September, 2022, standard TDS rates will be considered for the purpose of tax deduction at source as per the provisions of Income Tax Act, 1961. No further communication from the shareholders shall be entertained post Friday, 16th September, 2022.
- . Members are requested to carefully read all the notes set out in the Notice of the AGM and on particular, instructions for joining the AGM and manners of casting vote through remote e-voting at the AGM. If you have any queries or issues regarding E-Voting you can write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022-23058738 and 22-23058542-43.

For Indian Railway Finance Corporation Limited

Vijay Babulal Shirode Company Secretary

Important Notice: hareholders holding shares in dematerialized mode are requested to update their records such as tax residential status, permanent account number (PAN), register their email addresses, mobile numbers and other details with the relevant depositories through their depository participants. Shareholders holding shares in physical mode are requested to furnish details to the Company's Registrar and Share Transfer Agent, M/s Beetal Financial & Computer Services (P) Ltd at irfc@beetalfinancial.com.

# INDIA NIPPON ELECTRICALS LTD.

### NOTICE OF 37<sup>™</sup> ANNUAL GENERAL MEETING. **E-VOTING INFORMATION & BOOK CLOSURE**

NOTICE is hereby given that, the 37th Annual General Meeting (AGM) of India Nippon Electricals Ltd. (the Company) is scheduled to be held on Wednesday, the 21st September 2022 at 10.00 A.M. through Video Conference ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013, rules framed thereunder read with Ministry of Corporate Affairs (MCA) Circular Nos. 2/2022 dated 5th May 2022 read with all other relevant circulars issued by MCA from time to time (collectively known as MCA Circulars) and the SEBI circular dated 13th May 2022 read with all other relevant circulars (SEBI Circulars) and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 to transact the ordinary and special business as set out in the Notice.

Links to the electronic copy of the Annual Report for the financial year 2021-22 along with Notice of the AGM have been sent to all the Members whose e-mail address is registered with the Company / Share Transfer Agent (STA) or with their respective Depository Participant.

Members can join and participate in the AGM through VC / OAVM only. The instructions for joining the AGM, manner of remote e-voting and casting vote through the e-voting system during the AGM have been provided in the Notice of AGM.

The Company is pleased to provide the following information regarding remote e-voting:

The proposed businesses as given in the Notice convening the Annual General Meeting shall be transacted through Statement on business to be transacted by electronic voting, as per the Notice of the AGM remote e-voting and e-voting on the AGM day. Date and time of commencement of remote From 9 A.M. onwards on 18th September, 2022 (Sunday) e-Voting Date and time of ending of remote e-Voting Upto 5 P.M. on 20th September, 2022 (Tuesday) Cut-off date to determine the eligibility to 14th September, 2022

emote e-Voting The remote e-Voting shall not be allowed beyond the said date and time. Once the vote on a resolution is

cast by a Member, such Member will not be allowed to change it subsequently. Only a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners ained by the depositories as on 14th September, 2022 shall be entitled to avail the facility of remote e Voting as well as e-Voting on the AGM day. Members who have cast their vote by remote e-Voting prior to the AGM may also attend & participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again through e-Voting facility available during AGM. Further, only those Members, who are present in the AGM through VC/OAVM facility and have not cast their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system available during the AGM. Members holding shares in physical form may vote through remoti e-Voting and participate in the AGM following the procedure detailed in the Notice.

Website details of the Company / Agency, where the Notice of AGM / Annual Report is displayed.

www.indianippon.com, under the link https://indianippon.com/ investors/#tab-1538379349283-8-1 and www.evotingindia.com. The said documents can also be accessed from the websites of the Stock Exchanges where

Contact details of the person responsible to address the grievances connected with electronic voting.

the shares of the Company are listed. In case Members have any queries or issues regarding e-Voting, Members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-Voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write to helpdesk.evoting@cdslindla.com or contact CDSL addressing Mr. Rakesh Dalvi, Manager, CDSL, E.mail ID.:

helpdesk.evoting@cdslindia.com. Toll Free No : 1800225533. Any person, who acquires the shares of the Company & becomes a member after the cut-off date for sending the notice i.e. 19th August, 2022 may write to the Company / STA by e-mail at investors@inel.co.in / nvestor@cameoindia.com providing such details as stated in the Notice.


M/s. BP & Associates, Company Secretaries, represented by its Partner, Mr. C. Prabhakar has beer appointed as Scrutinizer for conducting the voting process in a fair and transparent manner. The Company has also published a communication dated 16th August 2022 to facilitate updation of e-mail IDs by Members who have not registered the same. Members are requested to keep their updated e-mai

IDs with the Company / Depository Participants to receive timely communication. NOTICE is further given that pursuant to Section 91 of the Companies Act 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of SEBI (LODR) Regulations 2015, the Register of Members and Share Transfer Books will remain closed from 15th September, 2022 to 21st September, 2022 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting

Place: Chennai

For INDIA NIPPON ELECTRICALS LTD Date: 26th August, 2022

Arvind Balaii Managing Director



Place: Gurugram

Date: August 26, 2022

he Results on resolutions shall be declared within two working days of the conclusion

Company Secretary cum Compliance Officer

देखें नियम 8(1)

जब कि, इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार अमित कुमार शुक्ला और मंजू देवी को 25.05.2022 की सचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. HDHLGRG00487682 (बीएचएफएल का पूर्व लैन कोड 00002714) (आवेदन नं. 01870924) की राशि रू. 58,02,006.45 (रूपये अट्ठावन लाख दो हजार छह और पैंतालीस पैसे मात्र) और 20.05.2022 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि. अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 24.08.2022 को संपत्ति पर सांकेतिक आविपत्य कर लिया है ।

विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतद्द्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधा किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू. 58,02,006.45 (रूपये अड्डावन लाख दो हजार छह और पैंतालीस पैसे मात्र) 20.05.2022 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ ईंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के आधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है ।

अचल संपत्ति का विवरण

चकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सचना जारी की थी ।

एच. नं. 171/769, मापित क्षेत्र 102.7 चौ. यार्डस, जिसका कवर्ड क्षेत्र 2300 चौ. फीट, आरजी खेवत/खाता नं. 294/310 और 513/544, किला नं. 27//29/2, 30, गली नं. 18, मौजा कादीपुर कॉलोनी में स्थित, शिवाजी पार्क, तहसील कादीपुर जिला गुरुप्राम, खंडसा रोड, गुड़गाँव, हरियाणा

प्राधिकृत अधिकारी

इंडियाबल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

जब कि,

विनांक : 24.08.2022

स्थान : गुरुग्राम

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अभोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट. 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार अंकित गर्ग, आशा गर्ग और विजय कुमार गर्ग को 17.05.2022 की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. HHLLAJ00474570 की राशि रू. 1.59.72.194.53 (रूपये एक करोड उनसठ लाख बहत्तर हजार एक सौ चौरानवे और तिरपन पैसे मात्र) और 13.05.2022 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सचना जारी की थी ।

परिशिष्ट IV

देखें नियम 8(1)

कब्जा सूचना

(अचल संपत्ति हेत्)

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतदद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 23.08.2022 को संपत्ति पर सांकेतिक आधिपत्य कर लिया है।

विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतदद्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू. 1,59,72,194.53 (रूपये एक करोड़ उनसट लाख बहत्तर हजार एक सौ चौरानवे और तिरपन पैसे मात्र) 13.05.2022 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के आधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

जनकपुरी में स्थित, जमीन माप 175.5 चौ. मीटर्स पर निर्मित ब्लॉक सी-1 में, बिल्ट-अप फ्रीहोल्ड संपत्ति नं. 111के दक्षिणी सामने की ओर का भाग (छत / टेरेस के अधिकार के साथ) तीसरी मंजिल, उक्त संपत्ति के नीचे की भूमि में अविभाजित और अविभाज्य समानुपातिक हिस्से के साथ, नई दिल्ली-110058।

दिनांक : 23.08.2022 प्राचिकृत अधिकारी इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड स्थान : दिल्ली

> परिशिष्ट IV देखें नियम 8(1) कब्जा सचना (अचल संपत्ति हेत)

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार अनामिका मल्होत्रा (गारंटर), मनु मल्होत्रा और नेहा को 29.04.2022 की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. HHLGRG00307320 की राशि रू. 16,09,731.88 (रूपये सोलह लाख नौ हजार सात सौ इकतीस और अड्डासी पैसे मात्र) और 28.04.2022 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचन

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 23.08.2022 को संपत्ति पर सांकेतिक आधिपत्य कर लिया है ।

विशेषतः कर्जदारों और सामान्यतः जनता को एतदुद्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू. 16.09.731.88 (रूपये सोलह लाख नी हजार सात सौ इकतीस और अद्वासी पैसे मात्र) 28.04.2022 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के आधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है ।

अचल संपत्ति का विवरण गाँव बिदापुर के रेवेन्यू एस्टेट में स्थित खसरा नं. 351 में से, पहली मंजिल (पीछे की ओर/पूर्व का भाग), छत के

अधिकारों के बिना बिल्ट-अप संपत्ति बियरिंग प्लॉट नं. 137 और प्लॉट नं. 138 का हिस्सा, क्षेत्र माप 50 चौरस यार्डस, गली नं. 6, ब्लॉक-टी एक्सटेंशन, उत्तम नगर, नई दिल्ली -110059 और जो निम्नानुसार परिबध्द है: पूर्व : गली उत्तर : रिक्त प्लॉट पश्चिम : सामने की ओर /15' चौड़ी सड़क दक्षिण : प्लॉट नंबर 138

प्राधिकत अधिकारी दिनांक : 23.08.2022 स्थान : दिल्ली इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

> परिशिष्ट IV देखें नियम 8(1) कब्जा सूचना

जब कि.

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट. 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार विनोद शर्मा और नीलम शर्मा को 23.05.2022 की सचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. HHLNOD00269783 की राशि रू.20,39,153.10 (रूपये बीस लाख उनतालीस हजार एक सौ तिरपन और दस पैसे मात्र) और 18.05.2022 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतदुद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 23.08.2022 को संपत्ति पर सांकेतिक आश्विपत्य कर लिया है ।

विशेषत: कर्जवारों और सामान्यत: जनता को एतददारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू.20,39,153.10 (रूपये बीस लाख उनतालीस हजार एक सौ तिरपन और दस पैसे मात्र) 18.05.2022 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के आधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

उत्तम नगर, ब्लॉक के-50 बाल उद्यान रोड, इलेक्ट्रीक कनेक्शन (दक्षिणी हिस्सा) और स्वतंत्र पानी के कनेक्शन के साथ सामान्य सीढ़ीयाँ, पैसेज, प्रवेश, सबमर्सिबल के साथ नीचे की भूमि के उपयोग के समानुपातिक अधिकारों के साथ, के-ब्लॉक उत्तम नगर से पहचाने जानेवाला क्षेत्र आबादी गाँव हस्तसाल दिल्ली के रेवेन्यु इस्टेट में स्थित खसरा नं.5 रेक्टेंगल नं. 91 (91/5) में से बिल्ट-अप प्रॉपर्टी बियरिंग नं. के 50,मापित 75 चौ. यार्डस् यानि 62.71चौ. मीटर्स (आकार 22.5' X 30') के छत के अधिकारों के साथ तीसरी मंजिल, नई दिल्ली-110059।

परिबध्द है: पूर्व : 15' चौड़ी गली

पश्चिम : प्लॉट नं. के 51 उत्तर : प्लॉट का हिस्सा दक्षिण: 15' चौड़ी गली

प्राधिकत अधिकारी दिनांक : 23.08.2022 स्थान : नई दिल्ली इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

# almondz

**ALMONDZ GLOBAL SECURITIES LIMITED** CIN: 1.74899DI 1994PI C059839

Regd. Off.: F-33/3, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi - 110020 Tel.:: 011-43500700, Fax.: 011-43500735 Website: www.almondzglobal.com, E-mail ID: secretarial@almondz.com NOTICE OF 28TH ANNUAL GENERAL MEETING THROUGH VIDEO

CONFERENCING ("VC") / OTHER AUDIO VISUAL MEANS ("OAVM"),
REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE INTIMATION

NOTICE is hereby given that the 28th Annual General meeting of Shareholders of the Company will be held on Tuesday, 20th September, 2022 at 11.30 A.M. through Video Conferencing /Other Audio Visual Means ("VC/OAVM"). In compliance with the releasant provisions of the Companies Act, 2013 (as amended) (the act) and the SEBI(Listing Regulations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended) (the Listing Regulations) and all applicable circulars issued by Ministry of Corporate Affairs (McA) for convening the General Meeting through VC/OAVM and Securities and Exchange Board of India (SEBI circulars), companies are allowed to hold AGM through Video Board of India (SEBI Circulars), companies are anowed to note Asim undogny video Conferencing, without the physical presence of members at a common venue. Hence the AGM of the company is being held through VC to transact the business set out in the Notice which has already been sent alongwith the Annual Report including Audited Financial Statements for the Financial Year ended 31st March, 2022 to the shareholders individually through e-mail if his/her e-mail address is registered with the Depository Registrar & Transfer Agent. The Notice of 28th AGM is also available on the Compan registrar a transfer Agent. The Notice of 25" Alom is also available on the Company's website www.almondzglobal.com, and on the website of Stock Exchanges www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the website of CDSL at www.evotingindia.com. The dispatch of Notice of AGM through emails has been completed on 25th August, 2022.

The Company is providing its member the facility to exercise their right to vote by electronic means and the business may transact through e-voting Services provided electronic means and the business may transact through e-voting Services provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL). E-voting facility will be available at the link www.evotingindia.com. The e-voting period commences on Saturday, 17th September, 2022 at 10:00 A.M. & end on Monday, 19th September, 2022 at 05:00 P.M. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, it shall not be allowed to change subsequently. The Cut-off date for the purpose of e-voting shall be Tuesday, 13th September, 2022. For electronic voting instructions, Shareholders may go through the instructions in the Notice of AGM of the Company.

Person who acquire shares and become member of the company after the dispatch of notice and who are eligible shareholders as on cut-off data i.e. Tuesday, 13<sup>th</sup> September, 2022 may contact Mr. Puneet Mittal on (011-29961281) or beetairta@gmail.com to obtain the login id and password.

Remote e-voting through electronic means shall not be allowed beyond 5.00 P.M. of September 19, 2022. A member may participate in the general meeting even after exercising her/his right to vote through remote e-voting, but shall not be allowed to vote again in the meeting. Facility for voting will also be made available during the AGM and those present in the AGM through VC facility, who have not cast their vote through Remote e-voting shall be eligible to vote through the e-voting system at the AGM. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintianed by the depositories as on the cut-off date only shall antitled to avail the facility of remote e-voting. entitled to avail the facility of remote e-voting

The manner of Remote e-voting and in the AGM for Members holding shares in physical mode or in dematerialized mode and for members who have not updated their email addresses with the Company, is provided in the Notice of the AGM.

In case of any queries/grievances pertaining to e-voting, you may contact Mr. Puneet Mittal General Manager, Beetal Financial & Computer Services Pvt. Ltd. at beetalrta@gmail.com, Telephone Nos. 011- 29961281 or write an e-mail at helpdesk.evoting@cdslindla.com or contact 1800225533.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 read with regulation 42 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 notice is also hereby given that the Register of Members & Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, 14th September, 2022 to Tuesday 20th September, 2022 (Both days inclusive) for 28th Annual General meeting of Company meeting of Company.

By Order of the Board For Almondz Global Securities Ltd.

(Alay Pratap) Date: 26.08.2022 Company Secretary & Vice President Corporate Affairs

# 🚠 सोम डिस्टिलरीज एण्ड ब्रेवरीज लिमिटेड

नई दिल्ली-110029. फोन: + 91-11-26169909, 26169712. फैक्स: + 91-11-2619589 पिरिट कार्यालयः सोम हाउस, 23, जोन ॥, एम.पी. नगर, भोपाल (म.प्र.)–462011 नि: + 91–755–4278827, 4271271, फैक्स: + 91–755–2557470

liance@somindia.com, वेबसाइट: www.somindia.com ww.somindia.com CIN : L74899DL1993PLC052787 (BSE : 507514, NSE : SDBL) शेयरधारकों को सूचना - वीडियो कॉन्क्रेंस (वीसी)/ अन्य ऑडियो विजुअल (ओएवीएम) सुविधा के माध्यम से २९वीं वार्षिक आम बैठक

सूचित किया जाता है कि सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रेवरीज लिमिटेड के सदस्यों की 29वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) मंगलवार, 27 सितंबर 2022 को दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) / अन्य ऑंडियो विजुअल (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी। कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार, सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020 के साथ पठित , सामान्य परिपत्र संख्या 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021, सामान्य परिपत्र संख्या 21/2021 दिनांक 14 दिसंबर, 2021 और सामान्य परिपत्र संख्या 02/2022 दिनांक 5 मई, 2022 क्रमशः, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय और परिपन्न द्वारा जारी किया गया सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021 और परिपत्र सं. सेबी/एचओ/डीडीएचएस/पी/सीआईआर/2022/0063 दिनांक 13 मई, 2022 क्रमशः, प्रतिभृतियों द्वारा जारी और भारतीय विनिमय बोर्ड, (सामृहिक रूप से लागू परिपत्रों के रूप में संदर्भित) ने वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम आयोजित करने की अनुमति दी है। तदनुसार, एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बुलाई जाएगी और व्यापार लागू परिपत्रों के साथ पठित अधिनियम के लागू प्रावधानों के अनुपालन में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान के द्वारा किया जा सकेगा। पूर्वोक्त परिपत्रों के अनुसार, एजीएम की सूचना वित्तीय वर्ष 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जानी है, जिनकी ई–मेल आईडी पहले से ही कंपनी/डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत है। कंपनी अपने सभी सदस्यों को पहले की तरह ही ई-वोटिंग

और रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा भी प्रदान कर रही है। यदि आपकी ईमेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी के पास पहले से पंजीकृत है, तो एजीएम की सूचना के साथ वित्तीय वर्ष 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट और ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विवरण आपके पंजीकृत ईमेल पते पर भेजा जाएगा। यदि आपने कंपनी/डिपॉज़िटरी के साथ अपना ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं किया है, तो वित्तीय वर्ष 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट और ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विवरण प्राप्त करने हेतु अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत करने के लिए कृपया नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करें।

भौतिक ईमेल पता दर्ज कराने के लिए एमएएस सर्विसेज लिमिटेड info@masserv.com पर फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर सर्टिफिकेट की स्कैन कॉपी (आगे और पीछे), पैन (पैन कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपी), आधार (आधार कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपी) के साथ कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट को एक अनुरोध भेजें। कृपया अपना बैंक विवरण मूल रद्व चेक के साथ हमारे आरटीए (यानी एमएएस सर्विसेज लिमिटेड, टी-34, दूसरी मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज- ॥, नई दिल्ली 100020 पर फोलियों नंबर का उल्लेख करने वाले पत्र के साथ भेजें, यदि पहले से पंजीकृत नहीं है।) कपया 20/09/2022 को या उससे पहले इसे अपडेट करें।

कृपया अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) से संपर्क करें और डीपी द्वारा बताई गई प्रक्रिया के अनुसार अपना ईमेल पता पंजीकृत करें। कंपनी द्वारा घोषित किए जाने पर NACH द्वारा लाभांश भुगतान के लिए कृपया अपने डीपी के साथ अपने बैंक विवरण को भी अपडेट करें। कपया २०/०९/२०२२ को या उससे पहले इसे अपडेट करें।

एजीएम की सचना और वित्त वर्ष 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.somindia.com पर और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com.पर भी जपलब्ध होगी। वीसी/ओणवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम के लिए की जाएगी।

बोर्ड की आज्ञानसा सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रेवरीज लिमिटेड दिनांक: 27/8/2022 नकुल काम सेठी, निदेशक

### एचसीएल इंफोसिस्टम्स लिमिटेड

सीआईएन: L72200DL1986PLC023955 पंजीकृत कार्यालयः ८०६, सिद्धार्थ, १६, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110 019 कॉपोरेंट कार्यालयः ए-11, सेक्टर - 3, नोएडा - 201301 (उ.प्र.) दरभाषः + 91-120-2520977, 2526518/519, फैक्सः +91 120 2523791

ईमेलः cosec@hcl.com, वेबसाइटः www.hclinfosystems.in वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (''वीसी'') / अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (''ओएवीएम'') के माध्यम से आयोजित होने वाली 36वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

यह हमारे 18 अगस्त, 2022 के पहले के संचार के क्रम में है, जिसके तहत एचसीएल इंफोसिस्टम्स लिमिटे ''कंपनी'') के सदस्यों को सूचित किया गया था कि कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') औ . नियमों के प्रावधानों और SEBI/HO/CED/CMD1/CIR/P/2020/79 SEBI/HO/CED/CMD2/CIR/P/2021/11 तथा SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 क्रमशः दिनांक दिनांक 12 मई 2020, 15 जनवर्र 2021 और 13 मई 2022 (''सेबी परिपत्र'') के साथ पटित कॉपोर्रेट कार्य मंत्रालय दारा जारी सामान्य परिपत्र सं. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 21/2021 और 2/2022 क्रमशः दिनांक 8 अप्रैल 2020 13 अप्रैल 2020, 5 मई 2020, 13 जनवरी 2021, 14 दिसंबर 2021 और 5 मई 2022 ("एमसी परिपत्र'') के साथ पठित सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और उद्घाटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 [''सेबी (एलओडीआर) विनियम''] के अनुपालन में, कम्पनी के निदेशक मंडल ने एजीएम नोटिस में निर्धारित . व्यवसायों को लेन-देन करने के लिए बुधवार, 21 सितंबर, 2022 को सुबह 10:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ''वीसी'') / अन्य ऑडियो वीडियो मीन्स (''ओएवीएम'') सुविधा के माध्यम से कंपनी की 36वीं वार्षिव आम बैठक बुलाने का निर्णय लिया है।

मेबी परिपन्न मं SEBI/HO/CED/CMD2/CIR/P/2022/62 दितांक 13 मई 2022 के माथ पटिट एमसीए परिपत्रों द्वारा सदस्यों को एजीएम नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां भेजने की आवश्यकत । समाप्त कर दिया गया है। तदनसार, ३१ मार्च, २०२२ को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की ३५३ एजीएम और वार्षिक रिपोर्ट की सूचना के साथ-साथ ई-वोटिंग सहित वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम रे 36वीं एजीएम में शामिल होने के लिए लॉगिन विवरण उन सभी सदस्यों को ई-मेल द्वारा 26 अगस्त, 2022 को भेज दिये गये हैं जिनके ई-मेल पते कंपनी या रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट या उनके संबंधिर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स (डीपी) के साथ पंजीकृत थे और ये कंपनी की वेबसाइट www.hclinfosys tems.in और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com तथा www.nseindia.com औ एजीएम के लिए ई-वोटिंग (रिमोट ई-वोटिंग सहित) की सविधा के लिए नियक्त एजेंसी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध हैं। समय-समय पर संशोधित कंपनी (पबंधन और प्रशासन) नियम 2014 के साथ पटित अधिनियम की धार 108, सेबी (एलओडीआर) विनियमों के विनियम 44, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक-2 और एमसीए परिपत्र के प्रावधानों के अनुपालन में, सदस्यों को 36 वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर एनएसडीएल द्वारा प्रदान की गई रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग सेवाओं के माध्या से इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने की सुविधा प्रदान की जा रही है।

रिमोट ई-वोटिंग रविवार, 18 सितंबर 2022 (09:00 पूर्वाह्र) भा.मा.स. से शुरू होगी और मंगलवार, 20 सितंबर 2022 (शाम 05:00 बजे) भा मा स. पर समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रू से अपना वोट डाल सकते हैं। इसके बाद. रिमोट ई-वोटिंग मॉडयल को एनएसडीएल द्वारा वोटिंग के लि निष्क्रिय कर दिया जाएगा। उक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से अपन वोट दोबारा डालने के हकदार नहीं होंगे।

एक बार सदस्यों द्वारा किसी संकल्प पर मतदान करने के बाद, सदस्यों को बाद में इसे बदलने की अनुमन्त्रि नहीं दी जाएगी। रिमोट ई-वोटिंग, एजीएम में शामिल होने और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के लिए विस्तर निर्देश ३४वीं एजीएम के नोटिस में दिए गए हैं। परी ई-वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संवीक्षा के लिए श्री विजीत के चौधरी वीकेसी एंड

एसोसिएटस के पार्टनर, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी (सदस्यता संख्या एफ5327), इनकी अनपस्थिति में श्री मोहित के. दीक्षित, पैक्टिसिंग कंपनी सेकेटरी (सदस्यता संख्या ए४९०२1) को कंपनी हारा स्कटिनाइजर र रूप में नियक्त किया गया है।

सदस्यों के वोटिंग अधिकार बुधवार, 14 सितंबर, 2022 (''कट-ऑफ तिथि'') तक कंपनी की चुकत इक्विटी शेयर पूंजी में उनके द्वारा धारित इक्विटी शेयरों के अनुपात में होंगे। कोई व्यक्ति, जिसका नाम कट-ऑफ तिथि तक सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है केवल वही एजीएम में शामिल होने का हकदार होगा. रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सविधा का लाभ उटा सकता है। कोई व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि तक सदस्य नहीं है. उसे इस नोटिस को केवल सचना के उद्देश्य से समझना चाहिए।

कोई भी व्यक्ति, जो 36वीं एजीएम की सूचना के इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण की तारीख के बाद शेयर हासिल करता है और कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट ऑफ तारीख़ को शेयर धारण करता है, 36वीं एजीएम की नोटिस में उल्लिखित निर्देशों का पालन करके या evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि वह पहले से ही ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल वे साथ पंजीकृत है, तो वह अपना वोट डालने के लिए अपनी मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है।

यदि आपने कंपनी/डीपी के साथ अपना ई-मेल पता पंजीकत नहीं किया है. तो आप ई-वोटिंग के लिए लॉगिंग विवरण प्राप्त करने के लिए कपया नीचे दिए गए निर्देशों का पालन कर सकते हैं:

कपया कंपनी के रजिस्टार और शेयर टांसफर एजेंट अलंकित असाइनमेंटस लिमिटेड, क info@alankit.com पर अनरोध भेजें या कंपनी से Cosec@hcl.com पर संपव करें. जिसमें अपने ई–मेल पते को पंजीकत करने के समर्थन में अपना नाम, फोलियो नंबर शेयर प्रमाणपत्रों की स्कैन की गई पति (आगे और पीछे), पैन कार्ड और आधार काः की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति प्रदान करें।

कृपया अपने डीपी से संपर्क करें और अपने डीपी द्वारा बताई गई प्रक्रिया के अनुसार अप डीमैट खाते में अपना ई–मेल पता पंजीकत करें।

इसके अलावा. अधिनियम की धारा ९१ के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों तथा सेब (एलओडीआर) विनियमों के विनियम 42 के अनुसार, कंपनी की 36वीं एजीएम के प्रयोजन के लिए कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक्स शुक्रवार, 16 सितंबर, 2022 से बुधवार, 21 सितंबर, 2022 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगे।

मतदान का परिणाम एजीएम के समापन से दो कार्य दिवसों के भीतर यानी 23 सितंबर, 2022 को या उसर पहले घोषित किया जाएगा और इस प्रकार घोषित परिणामों को समेकित जांचकर्ता की रिपोर्ट के साथ कंपर्न की वेबसाइट (www.hclinfosystems.in) और एनएसडीएल की वेबसाइट (www.evoting.nsdl.com) पर रखा जाएगा। इन परिणामों को तुरंत बीएसई लिमिटेड और एनएसई मंबई को भी भेजे जाएंगे।

–वीटिंग से जुड़े किसी स्पष्टीकरण∕शिकायत के मामले में, कृपया www.evoting.nsdl.com डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQs) - Shareholders तथा e voting user manual - Shareholders देखें या संपर्क करें: सश्री सोनी सिंह सहायक प्रबंधक ईमे आईडी - evoting@nsdl.co.in संपर्क नंबर - 1800 102 0990; 1800 22 4430.

स्थानः नोएडा

एचसीएल इंफोसिस्टम्स लिमिटेः कोमल बथल कंपनी सचिव और अनपालन अधिकार्र दिनांकः २६ अगस्त २०२२

#### ए2जें इन्फ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड CIN- L 74999HR2002PL C03480 पंजीकृत कार्यातयः ओ-116, पहली मंजिल, शॉपिंग मॉल, अर्जुन मार्ग,

डीएलएफ सिटी, फेज-।, गुरूग्राम-122002, हरियाप **कॉर्पोरेट कार्याबदः** प्लाट नं. बी—38, सैक्टर—32, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरूग्राम—122001, हरियाण **फोनः** 0124-4517600.

ईमेलः investor.relations@a2zemail.com, वेबसाइटः www.a2zgroup.co.in 21वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना, ई—वोटिंग जानकारी और बुक क्लोजर

तद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (''एमसीए परिपत्रों'') द्वारा जारी किये गर्ये सामान्य परिपत्र सं0. 14/2020, 17/2020 और 20/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020 और 5 मई, 2020 क्रमशः और स्पष्टीकरण परिपत्र सं0. 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021, परिपत्र सं0. 19/2021 दिनांक 08 दिसम्बर, 2021, परिपत्र सं0. 21/2021 दिनांक 14 दिसम्बर, 2021 और परिपत्र सं0. 2/2022 दिनांक 05 गई, 2022 तथा भारतीय प्रतिमति एवं विनिमय बोर्ड ("सेबी परिपत्र") द्वारा जारी किये गये सेबी/एकओ/सीएफडी/सीएमडी2 /सीआईआर/पी/2022/62 दिनांक 13 मई, 2022 तथा सेबी (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुपालन में एजीएम के आयोजन की सूचना मे निर्घारित व्यवसाय के निष्पादन के लिए **ए2जेंड इन्छा इंजीनिवरिंग लिमिटेंड ("कंपनी")** के सदस्यों की 21वीं (इक्कीसवीं) वार्षिक आग बैठक ("एजीएम") सोमवार, 19 सिरान्बर, 2022 को दोपडर 12.30 बजे विडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विडियो माध्यमों ("ओएवीएम") माध्यम से आयोजित की जाएगी।

कंपनी ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साध्य एजीएम की सूचना सुक्रवार, 28 व्यगस्त, 2022 को इलेक्ट्रॉनिक पद्धति (अर्थात् ई-मेल) से उन सदस्यों को भेज दी है जिनके ई-मेल पते पास पंजीकृत हैं। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट और एजीएम की सूच ई—वोटिंग दिशानिर्देश के साथ कंपनी को वेबसाइट (www.a2zgroup.co.in), बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com), नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (www.nseindia.com) और नेशनल सिक्योरिटीज किपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसढीएल") की वेबसाइट (www.evoting.nsdl.com) पर भी उपलब्ध हैं।

नीज अधिनियम, 2013 की घारा 91 और कंपनीज (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 संशोधन द्वारा कंपनीज़ (प्रबंधन एवं प्रशासन) संशोंधन नियम, 2015 और सेनी (सूचीयन बाध्यताएं एवं एवं शेयर अंतरण परितकारों मंगलवार, 13 सितम्बर, 2022 से सोमवार, 19 सितम्बर, 2022 (दोनों दिवस शामिल) तक एजीएम के उद्देश्य हेत् बंद रहेगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 108 के प्रावघानों के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सेबी (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाऐं) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसरण में कंपनी अपने सदस्यों को एजीएम की सूचना में निष्पादित किये जाने वाले सभी व्यवसाय के संबंध में नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा चपलब्ध कराई गई ई—वोटिंग सेवा के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ('रिमोट ई—वोटिंग') के साथ ही एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट देने की सुविधा उपलब्ध करा रही है एनएसडीएल के ई-वोटिंग सिस्टम का उपयोग करके वोट देने की प्रक्रिया "इलेक्टॉनिक रूप से कैसे अपना वोट कैसे डालें और एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम पर बैठक में कैसे शामिल हों" शीर्षक के अंतर्गत सूचना में दी गई है। रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम में वोटिंग को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से आयोजित करने एवं दिये गये वोट की जांच के लिए सन्नी सचित्ता कोले (सी.पी. नं. 714) ढीआर एसोसिएटस की पार्टनर, पेशेवर कंपनी सचिव, नई दिल्ली को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। अन्य जानकारी निम्नानुसार है:

- रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम में ई-वोटिंग की कट-ऑफ तिथि सोमवार, 12 सितम्बर 202 है। रिमोट ई-वोटिंग की अवधि शक्रवार, 18 सितम्बर, 2022 को प्रात: 09:00 बजे से प्रारम्ब होगी और रविवार, 18 सितम्बर 2022 को सावः 05:00 बजे समाप्त होगी।
- रिमोट ई-वोटिंग कथित तिथि व समय के बाद की अनमति नहीं दी जायेगी। कोई व्यक्ति जो एजीएम की सूचना प्रेषित होने के बाद कंपनी के शेयर प्राप्त करता है, और
- कंपनी का सदस्य बनता है, तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात् 12 सितम्बर, 2022 को शेयर रखता है, वह <u>evoting@nsdl.co.in</u> या <u>investor.relations@a2zemail.com</u> पर एक निवेदन मेजकर लॉग इन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हलांकि, यदि आप ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पहले से पंजीकृत है, तो आप अपनी मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का प्रयोग मतदान करने के लिए कर सकते हैं। यदि आप अपना पासवर्ड भूल गये हैं तो आप www.evoling.nsdl.com पर उपलब्ध "फॉरगेट यूजर डिटेल्स/पासवर्ड" विकल्प का प्रयोग करके अपना पासवर्ड पुनः निर्घारित कर सकते हैं।
- कोई भी सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद भी वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकता है, लेकिन उसे एजीएम में पुनः मतदान करने की अनुमति नहीं होगी। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग करने के सुविधा कंपनी की एजीएम में उपलब्ध करायी जायेगी
- . और एजीएम में माग लेने वाले जिन सदस्यों ने रिमोट ई—वोटिंग के द्वारा अपने मत नहीं ढाले हैं, वे एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से बैठक में अपने मताधिकार का प्रयोग करने में सक्षम होगें।
- किसी भी पूछताछ के लिए आप एजीएम से पूर्व या एजीएम के दौरान किसी भी सहायता के लिए वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर "ढाउनलोड" सैक्शन पर उपलब्ध सदस्यों के लिए अक्स पुछे जाने वाले पुश्न (एफएक्य) और सदस्यों के लिए ई-वोटिंग यजर मैनक्षल का अवलोकर कर सकते हैं। आप एनएसडीएल के टोल फ्री नं. 1800 1020 990 या 1800 22 44 30 पर भी कॉल कर सकते हैं या सुश्री सरिता मोरे, सहायक प्रबंधक, एनएसढीएल से पदनामित ई—मेल आईडी evoting@nsdl.co.in पर सम्पर्क कर सकते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से जुड़ी आपकी शिकायतों का समाधान करेगी या आप श्री अतुल कुमार अग्रवाल, कंपनी सचिव को सम्पर्क कर सकते हैं या ई-मेलः investor.relations@a2zemail.com पर मेल भेज सकते हैं।

कंपनी के सदस्य जिन्होंने अपना ई—मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, वे निम्नलिखित प्रक्रिया व पालन करके इसे पंजीकृत करा सकते हैं:

मौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने के मामले में कृपया फोलियो नं., शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र (आगे एवं पीछे) की स्कैन प्रति, पैन (पैन कार्स की स्व—सत्यापित स्कैन की गई प्रति) आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति) मोबाइल नंo और ई-मेल आईडी को कंपनी के ई-मेल investor relations@a2zemail.com या आरटीए के ई-मेल rta@alankit.com

हिमेट प्रारूप में घारित शेयर के मामले में सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने हिपॉजिटरी

पतिमागी के पास अपना ई-मेल पता पंजीकत कराएं या अस्थायी पंजीकरण के लिए कृपय अपना डीपीआईडी-सीएलआईडी (16 अंक डीपीआईडी+सीएलआईडी या 16 अंक लामार्थी आईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित लेखा विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति), मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आईडी को investor.relations@a2zemail.com पर या आरटीए को rta@alankit.com पर भेजें। प्रस्तावों पर परिणाम कंपनी के एजीएम की समाप्ति के दो कार्य दिवसों के मीतर घोषित किया जाएगा। सदस्यों की जानकारी के लिए पर्यवेक्षक की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम कंपनी की वेबसाइट (www.a2zgroup.co.in) और एनएसढीएल की वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाएंगे तथा

इसकी जानकारी स्टॉक एक्सचेंजों को भी दी जाएगी।

स्थान : गुरुग्राम

दिनांकः 28 सगस्त, 2022

कृते एटजेड इन्का इंजीनियरिंग लिमिटेड **5**401./-अतुल के. अग्रवाल कंपनी सचिव सह अनुपालन अधिकारी

परिशिष्ट IV देखें नियम 8(1) कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

दिनांक : 23.08.2022

स्थान :दिल्ली

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट. 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार पर्रामदर कौर और उपकार सिंह को 27.05.2022 की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. HHLRHN00408749 की राशि रू.15,48,222.86 (रूपये पंद्रह लाख अड़तालीस हजार दो सौ बाईस और छियासी पैसे मात्र) और 23.05.2022 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी ।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतदुद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 23.08.2022 को संपत्ति पर सांकेतिक आधिपत्य कर लिया है ।

विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतद्द्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू.15,48,222.86 (रूपये पंद्रह लाख अड़तालीस **हजार दो सौ बाईस और छियासी पैसे मात्र) 23.05.2022** के अनुसार और उस पर ब्यान के साथ इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के आधीन होगा।

उधारकर्ताओ का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

तल मंजिल पर कॉमन एक दू व्हीलर पार्किंग जगह के साथ भूमि के नीचे के समानुपातिक अधिकारों के साथ ब्लॉक-सी में कॉलोनी नन्हे पार्क से पहचाने जानेवाला क्षेत्र आबादी, गाँव मटियाला के रेवेन्यू एस्टेट में स्थित, खसरा नंबर 18/22 में से बिल्ट अप प्रॉपर्टी बेयरिंग प्लॉट नंबर 8 का पूर्व भाग मापित 50 चौरस यार्डस् यानि लगभग 41.81 चौरस मीटर्स, छत/टेरेस के अधिकार बिना पहली मंजिल के सामने से दाहिने हाथ की ओर का

हिस्सा. उत्तम नगर, दिल्ली-110059 और प्लॉट निम्नानुसार परिबध्द है : पूर्व : प्लॉट नंबर 9 पश्चिम : प्रवेश/एलएचएस फ्लैट/प्लॉट नंबर 7

उत्तर : ओ/संपत्ति दक्षिण: 20 फीट चौड़ी सड़क प्राधिकृत अधिकारी

माँग सूचना

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

ईंडेलवीज एसेट रीकंस्टक्शन कम्पनी लिमिटेड सीआईएन : U67100MH2007PLC174759

रिटेल केन्द्रीय एवं पंजीकृत कार्यालय : ईंडेलवीज हाउस, ऑफ सीएसटी रोड, कलीना, मुम्बई 400098 . अधोहस्ताक्षरी प्रतिभृति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभृतिकरण तथा पुनर्निर्माण वे ाहत ईंडेलवीज एसेट रीकंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड (''ईएआरसी'') का अधिकृत प्राधिकारी है। प्रतिभूति हि प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपये में अधिकृत प्राधिकारी ने निम्नलिखित कर्जदार(रों) को उनके लिए निर्गत जो नीचे भी दिया गया है, सम्बद्ध माँग सूचना में उल्लिखित राशि का पुनर्भुगतान करने के लिए कहते हुए अधिनियम की धारा 13(2) के तहत एक माँ सूचना निर्गत की है। उपर्युक्त के सम्बन्ध में, एतद्वारा एक बार पुनः कर्जदारों को कथित माँग सूचना में नीचे लिखिर तिथियों से भगतान की तिथि तथा/अथवा कथित कर्जदार(रों) द्वारा क्रियान्वित अन्य दस्तावेजों/प्रलेखनों, यदि कोइ हो, के साथ पठित कर्ज के अनुबन्ध के तहत वसूलीकृत, देय तिथि तक भावी ब्याज सहित यहाँ नीचे उल्लिखि राशि को इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर ईएआरसी को अदा करने के लिए कहा जाता है कर्ज के बकाया पुनर्भुगतान हेतु प्रतिभृति के रूप में क्रमशः कथित कर्जदार(रों) द्वारा ईएआरसी के पास निम्नलिखि

ह.	कर्जदार्(रों)∕सह-कर्जदार्(रों) का नाम∕ऋण	माँग सूचना की तिथि तथा राशि	ट्रस्ट तथा एसाइनर क
सं.	खाता संख्या तथा कोड		विवरण
1	बलराज सिंह बंसल (कर्जदार) तथा बबली	08-08-2022	ईएआरसी ट्रस्ट
	एवं अतारी देवी (सह-कर्जदार)	तथा	एससी–423 तथा
	ऋण खाता सं. HL/0031/H/15/000044	रु. 79,96,036.48/-	पीएफएल
पिर	ा का विवरण:- संपत्ति का समस्त भाग-फ्रीहोल्डः	आवासीय संपत्ति संख्या, 7/12, भूमि माप	र 1 100 वर्ग गज, कुल 20

वर्ग गज में से, खसरा नंबर 557 में से, ग्राम घोंडा गजरां खादर गली नंबर, 8-9, के-ब्लॉक वेस्ट घोंडा इलाका शाहद दिल्ली गई दिल्ली पिन 110053, सीमाएं. – उत्तरः गली 10 फीट चौड़ा, दक्षिणः गली 15 फीट चौड़ा, पूर्व : दूसरों को संग पश्चिमः दूसरों की संपत्ति। स्वामित्व पंजीकृत विक्री विलेख संख्या–15114, खंड संख्या 65, पृष्ट संख्या 47–53, दिना 30.11.1998, बिक्री विलेख दिनांकः -27.11.1998, उप पंजीयक पर पंजीकृत

2	अभिषेक अवस्थी (कर्जदार) तथा समिता	08-08-2022 तथा	ईएआरसी ट्रस्ट एससी-			
ı	अवस्थी (सह–कर्जदार)	र्फ. 48,69,267.81∕−	422 तथा बीएचएफएल			
	ऋण खाता सं. 401HSLFV681924					
संपत्ति का विवरण:-अपार्टमेंट नंबर जी-2705, 26वीं मॅजिल, ब्लॉक/टावर-जी, आरजी लग्जरी होम्स, प्लॉट नं. जीएच						
07ए	07ए, सेक्टर-16बी, ग्रेटर नोएडा (पश्चिम), उत्तर प्रदेश का समस्त भाग।					
3	अजय कुमार (कर्जदार) तथा श्रीमती कल्पना	08-08-2022 तथा	ईएआरसी ट्रस्ट एससी-			

अग्रवाल एवं मैक्स एन्टरग्राइजेज (सह-कर्जदार) ₹. 50.36.287.09/-422 तथा बीएचएफए ऋण खाता सं. 401ZLT96752472 संपत्ति का विवरणः- एलआईजी फ्लैट नंबर 2686 भगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा, 121004, माप 34,99 वर्ग गज। सीमाएँ: – उत्तरः एलाआईजी फ्लैट नंबर 2687. दक्षि

एलआईजी पलैट नंबर 2685, पूर्वः एलआईजी पलैट नंबर 2649, पश्चिमः रोड । रक्त संबंध संख्याः –3886 के तहत अर संपत्ति के हस्तांतरण के पंजीकृत विलेख द्वारा स्वामित्व, दिनांक 24,07.2014 को, उप रजिस्ट्रार, बल्लभगढ़ में पंजीकृत अजब कमार (कर्जदार) तथा श्रीमती कल्पना 08-08-2022 तथा र्वाभागमी उस्त प्रसमी ₹. 15,10,275.45/-ऋण खाता सं. 401ZLT96748758

संपत्ति का विवरण: - एलआईजी फ्लैट नंबर 2686 ए. फर्स्ट फ्लोर, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी.

ाचाबात, हरियाणा, 121004 का समस्त भाग, माग 257,04 वर्ग फीट। सीमाएं- 5 उत्तर एहा आईजी फ्लैट नंबर 2687-ह्यूफ, दक्षिण: एलआईजी फ्लैट नंबर 2685-ए, एकएफ, पूर्वः एलआईजी फ्लैट नंबर 2649-ए, एफएफ, पश्चिम: सङ्ग्र हत बिक्री विलेख संख्या:–11410 के माध्यम से स्वामित्व, दिनांक 27.03.2006 को उप पंजीयक, बल्ल भगढ में पंजीव कुमार सिंह (कर्जदार) ऋण खाता सं. 08-08-2022 तथा रु. 52.60.663.80/- ऋण खाता 582HSL95968245 तथा 422 तथा बीएचएफए 582HSL95968245 में त 582TSH95993632

सं. 582TSH95993632 में. संपत्ति का विवरण: - पलैट नंबर 1304, 13 वीं मंजिल, टॉवर स्पार्क, सिक्का कामना ग्रीन्स, प्लॉट नंबर जीएच 3 (बी) सेक्टर 143, नोएडा, उत्तर प्रदेश -201307 का समस्त भाग। र 143, नीएडा, उत्तर ४५९१ -20-50-अमित कुमार सिंह (कर्जदार) ऋण खाता रो. 08-08-2022 रू. 59,80,589,03/-08-08-2022 तथा 582HSL95968237 में तथ 582TSH95993631

रु. 3.25.119.23/- ऋण खाता सं. 582TSH95993631 में. . प्रापित का विवरण: – फ्लैट नंबर 1402,14वीं मंजिर हर 143. नोपदा उत्तर प्रदेश –201307 का समस्त भाग माप 1325 वर्ग फीट

न्दर सिंह (कर्जदार) ऋण खाता सं 08-08-2022 तथा ईएआरसी टस्ट एसर 582HSL95911777 तथ रु. 43,32,280.33/- ऋण खाता रं. 5**82HSL9**5911777 में तथ 422 तथा बीएचएफा 582TSH96000370 रु. 4,41,363,04/- ऋण खाता

स 582TSH96000370 में. कुल राशि रु. 47,73,643.37/-संपत्ति का विवरण:- गिरवी रखी गई संपत्ति माप 950 वर्ग समस्त भाग, फ्लैट नं चीयर' की 19 वीं मॉजल पर स्थित, सिक्का कामना ग्रीन्स, प्लॉट नंबर जीएच-03 (बी), सेक्टर -14 फएनजी और एक्सप्रेसवे नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301

अभिषेक प्रमास्टिक देहिंग (कर्जरार) 08-08-2022 तथा ₹. 51,10,224.25 संपत्ति का विवरणः – मकान संख्या ९४ के पश्चिमी हिस्से का समस्त भाग, माप 100 वर्ग गज, कुल क्षेत्रफल 200 वर्ग ग ीमाएं: – उत्तर: सर्विस लेन, दक्षिण: सडक 10 फीट चौडी, पर्व: प्लॉट नंबर 94 का हिस्सा , पश्चिम: प्लॉट नंबर 95, पंजीक राजार - उत्तर सामय राज, पावणा पड़का विभाव पड़ा, जून साट जमर इन का हिस्सा, नावणा आहर है. नवा विकार विसेत्व दस्तावेज नंतर 269 के माध्यम से स्वामित्व, बुक नंबर क वॉल्यूम, नंबर 14418, पेज 219 से 280 पर, दिन 25/04/2019 को सब रजिस्ट्रार, सदर, गाजियाबाद में पंजीकृत

इन्दर पाल सिंह (कर्जदार) तथा मनमीत कौर, जसवीन कौर एवं प्रभ दवाल सिंह 五 6.71.69.511.90/-(सह-कर्जदार) का विवरण:- पूरी संरचना के साथ पहली और दूसरी मंजिल पर उसकी अंतिम मंजिल तक छत के अधिकार के र

नेर्मित संपत्ति का समस्त भाग. (कि सीढी और मार्ग अन्य के साथ कॉमन होगा) सम्पत्ति सं. डी–3/16 के पश्चिमी भाग ार्या नामा का त्याचा विकास मार्या, एवं सामुक्त आर्या मार्या का त्याच वर्षाना मार्या क्याची हो का <u>का का का विकास मार्या</u> नीमित, माप 66,66 वर्षा गण (10' x 60'), ब्लॉक-डी, कृष्ण नगर की आबादी में, ग्राम चौडली, दिल्ली-11051 के के! में स्थित, और सीमाएँ-उत्तर : रोड, दक्षिण:- सर्विस लेन, पूर्व:- संपत्ति संख्या, डी-3/16 का भाग, पश्चिम:- संपत्ति संख्य डी-3/15, पंजीकृत बिक्री विलेख संख्या 2339 (3/4वें हिस्से के लिए) के माध्यम से स्वामित्व, दिनांक 17.06,2019 औ 2340 (1 /4 हिस्से के लिए) दिनांक 17.06.2019 को, सब रजिस्ट्रार VIII, दिल्ली में पंजीकृत, पंजीकृत विभाजन विरं संख्या 2625 दिनांक 29.06.2001 से इन्दरपाल का हिस्सा, उप रजिस्ट्रार VIII, दिल्ली में पंजीकृत

विजय कुमार तिवारी (कर्जदार) ऋण खाता | 08-08-2022 तथा ऋण खाता स पससी-422 र्स. 582HSL95911774 तथा : 582HSL95911774 में ः 582H5L959117/4 म रु. 49,90,410.58/- तथा ऋण खाता सं. 582TSH95993876 में कल बकावा राशि रु. 4,18,240.63/- अर्थात कुल राशि रु. 54,08,651.21/

संपत्ति का विवरणः – आवासीय परीट / यूनिट संख्या, 1806 का समस्त भाग, 18 वी मंजिल पर, प्लॉट नंबर ३ (बी) स्थित टॉवर स्यार्क्त में, परियोजना 'सिक्का कामना ग्रीन्स 'खंड 143, एक्सप्रेसचे, नोएडा , उत्तर प्रदेश-201307 में। माप 11 प्लॉट नंबर ३ (बी) ार्ग फुट (सपर बिल्ट अप) योगेश कमार शर्मा (कर्जदार) तथा मनीष

णान्य (सह-कर्जदार) ऋण खाता सं H401HHL0178725, र्स. H401HHL0178725, H401VPL0183968 H401VPI 0395975 дол ₹. H401VPL0183968 H401VPL0395975 तथा काचा राशि रु. 5.33.349.40.

बकाया राशि रु. 75,46,376.41 <mark>संपत्ति का यिवरणः</mark> – आवासीय निवास इकाई संख्या एन–1004 का समस्त भाग, 10वीं मंजिल पर, टॉवर–एन में, परिस अजनारा डैफोडिल', प्लॉट नंबर जीएच– 07 / बी, सेक्टर –137, नोएडा, जिला, गौतमबुद्ध नगर, ड.प्र. पिन कोड–20130 पर निर्मित, सपर परिया 1115 वर्ग फीट, अर्थात 103.62 वर्ग मीटर, जिसमें कवर्ड परिया 889.364 वर्ग फीट, अर्थात 82.65 चर नानार, चुनर पूर्णा । । । । ज भा तर, जला। । ७३,५० र मानद, जावन कपन चुरणा ०५,५० र । वर्ष मीटर), जिसमें दो वीएचके, एक साथ और आनुपातिक अधिभावत अधिभावन हित शासिल है, जो संलान योवान अनुसार उपटेके के आधार पर भूमि में, विधिवत रूप से नीएडा प्राधिकरण द्वारा योगेश कुमार शर्मा और मनीणा शाक्य के

क्रम सिंह (कर्जदार) तथा गुरबिन्दर कौर	08-08-2022 तथा	ईएआरसी ट्रस्ट एससी -			
( सह–कर्जदार )	₹. 36,33,823.57/-	418 तथा ईएचएफएल			
ह्म खाता सं. LDEL0UC0000055477					
विवरणः - यूनिट नंबर, टी -1107 (जीपीएल0टी 1107) का समस्त भाग, 11वीं मंजिल, माप 920 वर्ग फीट, प्लॉट					
i-01एफ पर, 'गायत्री लाइफ', ब्लॉक टेरा (टी) प्रोजेक्ट, सेक्टर 16, ग्रेटर नोएडा उ.प्र. पिन-201701 पर स्थित।					
	1 2 1 2 1	, ,,,,			

यदि कर्जबार उपर्युक्त के अनुसार इंप्रआरसी को भुगतान करने में असफत रहते हैं तो ईप्रआरसी लागतों तथा परिणामों के प्रां कथित कर्जबार (रो) के सम्पूर्ण जोख्तिम पर अधिनियम की धारा 13(4) तथा प्रयोच्च नियमों के तहत उपर्युक्त प्रतिभृत आरितर के बिरुद्ध कार्यवाही करेगा। कर्जबारों को उपर्युक्त आस्तियों को विक्रय, पट्टे अथवा अन्य किसी माध्यम से ईप्रआरसी क पूर्व शिखित अनुमति के थिना हस्तानतित करने से निषिद्ध किया जाता है। कोई भी व्यक्ति अधिनियम के प्रावधानों अबस्

Edelweiss | ASSET

08-08-2022 तथा रू. 50.78.55646/<del>- ऋण खाता</del>

H401VPL0183961, कुल

. मित्व में मैसर्स एमपीजी रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से आवॉटेत किया गया है, पंजीकत टांसफर डीड सह सेल

. सके तहत निर्मित नियमों का उल्लंघन करता है अथवा उल्लंघन में सहयोग करता है वह अधिनियम के तहत प्रावधानित कते इंडेलबीज एसेट रीकंस्टब्शन कम्पनी लिमिटे